



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 1302]
No. 1302]नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 25, 2007/कार्तिक 3, 1929
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 25, 2007/KARTIKA 3, 1929

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2007

का.आ. 1820(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 287(अ), तारीख 26 फरवरी, 2007, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के दौसा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के 120.000 कि.मी. से 228.000 कि.मी. (महुवा-जयपुर सेक्शन) तक के भूखण्ड का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि) अनुक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 6 मार्च, 2007 को "दैनिक भास्कर" और "राजस्थान पत्रिका" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और, आक्षेप प्राप्त हुए थे, और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के दोसा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के 120.00 कि.मी. से 228.00 कि.मी. तक (महुवा - जयपुर खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का सक्षिप्त विवरण :

क्रम सं.	जिला का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	भूस्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	दोसा	दोसा	1. दोसा कलां	1026	निजी	नहर	100	कल्याण सहाय, कन्हैया लाल, भगवान सहाय पिता मांगीलाल हिस्सा 3/4 नवलकिशोर, विष्णु, निरंजन पिता देवीसहाय, मुसम्मात प्रेमदेवी पत्नि देवीसहाय हिस्सा 2/3 आशा, लाली पुत्री देवीसहाय हिस्सा 1/3 दर हिस्सा 1/4 जाति लौहार निवासी दोसा कलां
				348/2	सरकारी	गैरमुमकिन आबादी	100	नगरपालिका, दोसा
				362/1	सरकारी	गैरमुमकिन आबादी	100	नगरपालिका, दोसा
				1009	सरकारी	गैरमुमकिन चौकड़ी	100	सिंचाई विभाग व सार्वजनिक निर्माण विभाग, दोसा
			2. दोसा खुर्द	926/3	निजी	बारानी प्रथम	770	गुलाब देवी बेवा छीतर, कानाराम, सत्यनारायण, गणपत, बनवारी लाल पिता कैलाश चन्द व गीता बेवा कैलाश चन्द, भौरी देवी, मनफूली पुत्री छीतर हिस्सा 1/2 हीरालाल, बाबूलाल पिता रामेश्वर हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण निवासी दोसा खुर्द
				1167	निजी	बारानी प्रथम	100	धापा देवी पत्नि स्व. मुरलीधर, बद्रीनारायण, रामसहाय, कन्हैयालाल, ईश्वरचन्द्र, बृजमोहन, ओमप्रकाश, राजेन्द्र प्रसाद, पिता मुरलीधर जाति बलाई निवासी दोसा खुर्द खातेदार
				1168	सरकारी	गैरमुमकिन आबादी	200	नगरपालिका, दोसा
				1099	निजी	बारानी प्रथम	700	रामराय पुत्र रामसहाय मुसम्मात नाथी बेवा जगदीश रामकरण पुत्र जगदीश जाति ब्राह्मण निवासी दोसा खुर्द खातेदार
				1098	निजी	बारानी प्रथम	300	रामराय पुत्र रामसहाय मुसम्मात नाथी बेवा जगदीश रामकरण पुत्र जगदीश जाति ब्राह्मण निवासी दोसा खुर्द खातेदार
				1103	निजी	बारानी प्रथम	600	रामराय पुत्र रामसहाय मुसम्मात नाथी बेवा जगदीश रामकरण पुत्र जगदीश जाति ब्राह्मण निवासी दोसा खुर्द खातेदार
				1104	निजी	बारानी प्रथम	1260	रामराय पुत्र रामसहाय मुसम्मात नाथी बेवा जगदीश रामकरण पुत्र जगदीश जाति ब्राह्मण निवासी दोसा खुर्द खातेदार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1105	निजी	बाराही प्रथम	140	रामराय पुत्र रामसहाय मुसमात नाथी बेवा जगदीश रामकरण पुत्र जगदीश जाति ब्राह्मण निवासी दोसा खुर्द खातेदार
				988	निजी	नहरी	840	गोखम, बजरंग पिता बट्टी मुसमात घौसी बेवा रामसहाय, सत्यनारायण, कमलेश पिता रामसहाय जाति ब्राह्मण निवासी दोसा खुर्द खातेदार
				982	सरकारी	गैरमुमकिन नहर	100	सिंवाई विभाग, दोसा
				940	सरकारी	गैरमुमकिन नहर	100	सिंवाई विभाग, दोसा
				959	निजी	नहरी	500	रामेश्वर, रामप्रताप पिता मंगला, रामधारी धर्मपति स्व. धन्ना, रमेश, रामजीलाल, गिराजप्रसाद पिता धन्ना जाति ब्राह्मण निवासी दोसा खुर्द खातेदार
				955	निजी	नहरी	560	श्रीनारायण पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/2 कल्याण पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण निवासी दोसा खुर्द खातेदार
				956	निजी	नहरी	1260	श्रीनारायण पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/2 कल्याण पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण निवासी दोसा खुर्द खातेदार

[फा सं एन एच ए आईबी ओ टी/11013/12/05/पू अ.]

प्रभाकर, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**(Department of Road Transport and Highways)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th October, 2007

S.O. 1820(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 287(E), dated the 26th February, 2007, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 11 on the stretch of land from Km 120.000 to Km 228.00 (Mahua-Jaipur Section) in District Dausa in the State of Rajasthan;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Dainik Bhaskar" and "Rajasthan Patrika", both dated the 06th March, 2007, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 120.000 to Km 228.000 [Mahua - Jaipur Section] of National Highway No. 11 in the State of Rajasthan.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in square meter)	Name of the land owner/ interested persons
1		2	3	4	5	6	7	8
1	Dausa	Dausa	(1)Dausa Kalan	1026	Private	Nahar	100	Kalyansahai, Kanhaiyalal, Bhagwansahai Father Mangilal Part of 3/4, Nawal Kishor, Vishnu, Nimjan Father Devisahai Smt. Premdevi Wife of Devisahai Part of 2/3, Asha, Lali Daughter of Devisahai Part of 1/3 @ Part of 1/4 Caste Lohar Resident at Dausa Kala
				348/2	Government	Ger Mumkin Aabadi	100	Municipality, Dausa
				362/1	Government	Ger Mumkin Aabadi	100	Municipality, Dausa
				1009	Government	Ger Mumkin Chokdi	100	Irrigation Department And Public Work Department, Dausa
			(2)Dausa Khurd	926/3	Private	Barani-1	770	Gulab Devi Widow of Chitar, Kanaram, Satyanarayan, Ganpat, Banwari Lal Father Kailash Chand And Geeta Widow of Kailash Chand, Bhonri Devi, Manfooli Daughter of Chitar Part of 1/2 Heeralal, Babulal Father Rameshwar Part of 1/2 Caste Brahman Resident at Dausa Khurd
				1167	Private	Barani-1	100	Dhapa Devi Wife of Late. Murlidhar, Badrinarayan, Ramsahai, Kanhaiyalal, Ishwarachandra, Brijmohan, Omprakash, Rajendra Prasad Father Murlidhar Caste Balai Resident at Dausa Khurd Khatedar
				1168	Government	Ger Mumkin Aabadi	200	Municipality, Dausa
				1099	Private	Barani-1	700	Ramray Son's of Ramsahai Smt. Nathi Widow of Jugdish, Ramkaran Son's of Jugdish Caste Brahmin Resident at Dausa Khurd Khatedar
				1098	Private	Barani-1	300	Ramray Son's of Ramsahai Smt. Nathi Widow of Jugdish, Ramkaran Son's of Jugdish Caste Brahmin Resident at Dausa Khurd Khatedar
				1103	Private	Barani-1	600	Ramray Son's of Ramsahai Smt. Nathi Widow of Jugdish, Ramkaran Son's of Jugdish Caste Brahmin Resident at Dausa Khurd Khatedar
				1104	Private	Barani-1	1260	Ramray Son's of Ramsahai Smt. Nathi Widow of Jugdish, Ramkaran Son's of Jugdish Caste Brahmin Resident at Dausa Khurd Khatedar

43329107-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1105	Private	Barani-1	140	Ramray Son's of Ramsahai Smt. Nathi Widow of Jugdish, Ramkaran Son's of Jugdish Caste Brahmin Resident at Dausa Khurd Khatedar
				988	Private	Nahari	840	Gordhan, Bajrang Father Badri Smt. Ghisi Widow Ramsahai, Satyanarayan, Kamlesh Father Ramsahai Caste Brahmin Resident at Dausa Khurd Khatedar
				982	Government	Ger Mumkin Nahar	100	Irrigation Department, Dausa
				940	Government	Ger Mumkin Nahar	100	Irrigation Department, Dausa
				959	Private	Nahari	500	Rameshwar, Rampratap Father Mangla, Rampyari Wife of Late. Dhanna, Ramesh, Ramjilal, Girrajprasad Father Dhanna Caste Brahmin Resident at Dausa Khurd Khatedar
				955	Private	Nahari	560	Shrinarayan Son's of Jaugnath Part of 1/2 Kalyan Son's Jaugnath Part of 1/2 Caste Brahmin Resident at Dausa Khurd Khatedar
				956	Private	Nahari	1260	Shrinarayan Son's of Jaugnath Part of 1/2 Kalyan Son's Jaugnath Part of 1/2 Caste Brahmin Resident at Dausa Khurd Khatedar

[F. No. NHA/BOT/11013/12/05/LA]

PRABHAKAR, Dy. Secy.